



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

13 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 169 राँची, सोमवार,

4 मार्च, 2019 (ई०)

---

**उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।**

-----  
अधिसूचना

02 मार्च, 2019

**संख्या :- 01/नीति-28/2018- 439 --** झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) की धारा 89 की उपधारा 1 एवं उपधारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल, विभागीय अधिसूचना संख्या 2135 दिनांक 24.12.2018 द्वारा प्रकाशित झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018 के नियम 23 (4) में निम्न प्रकार से संशोधन करते हैं :-

**संशोधन**

नियम	वर्तमान में लागू नियम	एतद् द्वारा संशोधित नियम
23 (4)	दुकान हेतु निर्धारित कुल वार्षिक उत्पाद राजस्व का 10% उत्पाद परिवहन कर के मद में अग्रिम रूप से बैंक ड्राफ्ट/विहित ऑनलाइन विधि के द्वारा अधिकतम पाँच (5) कार्य दिवसों (बंदोबस्ती की तिथि को छोड़कर) के अंतर्गत जमा करना होगा। अग्रिम उत्पाद परिवहन कर का सामंजस्य अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के अंतिम माह में किया जायेगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति को द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए अवधि विस्तार दिया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में पुनर्निर्धारित दर पर तय की गई उत्पाद परिवहन कर की अंतर राशि अनुज्ञाधारी को नवीकरण हेतु अभ्यावेदन समर्पित करते समय जमा कर देना होगा।	दुकान हेतु निर्धारित कुल वार्षिक उत्पाद राजस्व का 7.5% उत्पाद परिवहन कर के मद में अग्रिम रूप से बैंक ड्राफ्ट/विहित ऑनलाइन विधि के द्वारा अधिकतम पंद्रह (15) कार्य दिवसों (बंदोबस्ती की तिथि को छोड़कर) के अंतर्गत जमा करना होगा। अग्रिम उत्पाद परिवहन कर का सामंजस्य अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के अंतिम माह में किया जायेगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति को द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए अवधि विस्तार (नवीकरण) दिया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में पुनर्निर्धारित दर पर तय की गई उत्पाद परिवहन कर की अंतर राशि अनुज्ञाधारी को नवीकरण हेतु अभ्यावेदन समर्पित करते समय जमा कर देना होगा।

यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

सदस्य, राजस्व पर्वद के आदेश से,

**राहुल शर्मा,**  
सरकार के सचिव।

-----